



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1945 (श0)

(सं0 पटना 57) पटना, शुक्रवार, 19 जनवरी 2024

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

अधिसूचना  
16 जनवरी 2024

सं० जी/सेना-05-04/2021-508— युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, इसके द्वारा सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कम से कम 2 महीना बीत जाने पर, उक्त धारा की उप धारा-(2) के अधीन इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के संपूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में 23<sup>वीं</sup> अगस्त, 2023 से आरंभ होने वाली और 22<sup>वीं</sup> अगस्त 2043 को समाप्त होने वाली 20 वर्षों की अवधि के दौरान मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करने के लिए अधिसूचना जारी करने का अपना अभिप्राय अधिसूचित करते हैं। उक्त धारा की उप धारा-(1) के अपेक्षानुसार, उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में, जिसके भीतर 23<sup>वीं</sup> अगस्त, 2023 से आरंभ होने वाली और 22<sup>वीं</sup> अगस्त 2043 को समाप्त होने वाली 20 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप में मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है, परिभाषित करने वाली अधिसूचना दिनांक-17.10.2023 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सं०-12271 दिनांक-16.10.2023 द्वारा पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

अनुसूची  
भू-क्षेत्र का ब्यौरा/चौहद्दी

गया जिला- बाराचट्टी,  
फायरिंग रेंज का ब्यौरा एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	ग्राम/थाना नं०	रैयत का नाम	खाता	खेसरा	रकबा	किस्म	चौहद्दी
1	गोही/283	वन विभाग	12	173	32.10 एकड़	जंगल	उ० खेसरा-172 द० खेसरा-184,185 पू० खेसरा-174 प० खेसरा-173

क्र० सं०	ग्राम/थाना नं०	रैयत का नाम	खाता	खेसरा	रकबा	किस्म	चौहद्दी
				174	11.88 एकड़		उ० खेसरा-170 द० खेसरा-184 पू० खेसरा-176 प० खेसरा-173
				176	39.40 एकड़		उ० खेसरा-155 द० खेसरा-183,179 पू० खेसरा-177 प० खेसरा-170
2	विधि/277	वन विभाग	66	1362	100.00 एकड़	जंगल	उ० खेसरा-1362 द० खेसरा-1362 पू० खेसरा-1366,1367 प० खेसरा-1031

2. जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-6828, दिनांक-24.08.2023 के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को कार्यहित में निम्नलिखित शर्तों के साथ परिभाषित किया जाता है :-

- फायरिंग से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले गाँव को पूर्ण रूप से खाली कराने तथा इसका सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष/मुखिया/ सरपंच के स्तर से किये जाने के उपरान्त ही फायरिंग की अनुमति होगी।
- फायरिंग से संबंधित SOP के किसी भी बिन्दु का उल्लंघन होने की स्थिति में फायरिंग रोकने की शक्ति जिला प्रशासन में निहित होगी।
- फायरिंग के समय किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु सेना के तरफ से Single Nodal Point स्थापित किया जाएगा।
- मिसफायर गोली तथा गोला एवं बारूद की संख्या की पूर्ण जानकारी के साथ इसके Disposal की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित Firing Incharge/Camp Commandant की होगी।
- परिभाषित क्षेत्र के संबंध में दिनांक-20.07.2023 को Station Headquarters Gaya में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन करने की जिम्मेदारी Firing Incharge/Camp Commandant की होगी।

3. परिभाषित क्षेत्र की भूमि का विवरण का अवलोकन जिला पदाधिकारी, गया के कार्यालय में किया जा सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट,  
सरकार के सयुक्त सचिव।

16 जनवरी 2024

सं० जी/ सेना-05-04/2021-508 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट,  
सरकार के सयुक्त सचिव।

*The 16th January 2024*

No. G/Sena-05-04/2021-508— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act No 5 of 1938), the Governor of Bihar is hereby pleased to notify his intention to authorise under sub-section (2) of the said section of the Act to carry out field firing and artillery practice throughout the area in the Schedule hereto annexed or in its any specified part during the period of 20 years commencing from 23<sup>th</sup> August, 2023 and ending with 22<sup>th</sup> August, 2043. A notification as required by sub-section (1) of the said section, defining the said area as an area within which for the period of 20 years commencing from 23<sup>th</sup> August, 2023 and ending with 22<sup>th</sup> August, 2043. the carrying out periodically of field firing and artillery practice may be authorized, has been previously published in

the extraordinary issue of Bihar official Gazette, dated.17.10.2023 with S.O. 12271 dated the 16.10.2023

**Schedule**  
**Details and boundary of the land-area**

District Gaya-Barachatti

The details and boundary of Firing Range is given below :-

Sl. No.	Village/ Thana No.	Raiat Name	Khata	Plot No.	Area	Type of Land	Boundary
1	Gohi/283	Forest Department	12	173	32.10 Acre	Forest	North Plot No.- 172 South Plot No.- 184, 185 East Plot No.- 174 West Plot No.- 173
				174	11.88 Acre		North Plot No.- 170 South Plot No.- 184 East Plot No.- 176 West Plot No.- 173
				176	39.40 Acre		North Plot No.- 155 South Plot No.- 183, 179 East Plot No.- 177 West Plot No.- 170
2	Bidhi/277	Forest Department	66	1362	100.00 Acre	Forest	North Plot No.- 1362 South Plot No.- 1362 East Plot No.- 1366,1367 West Plot No.- 1031

2. In reference to report of the District Magistrate, Gaya vide letter no.- 6428, dated- 24-08-2023 The area mentioned in the above schedule is being defined in the work interest under the followed conditions :-

- (i) Firing within the notified area shall be allowed only after the village falling under the area is completely evacuated before firing and it is verified at the level of Block Development Officer/Police Station Head/ Mukhya/Sarpanch.
- (ii) In case of violation of any point of the SOP's related to the firing, the power to stop the firing will be vested in the district administration.
- (iii) To deal with any emergency at the time of firing, a single nodal point shall be established by the army.
- (iv) The concerned firing Incharge/Camp Commandant shall have the total responsibility for the detection and complete information alongwith the disposal of the number of misfired bullets, shells and ammo.
- (v) It will be the responsibility of the firing Incharge/Camp Commandant to comply with the points mentioned in the minutes of the meeting Regarding the defined area, held on 20.07.2023. at station headquarters, Gaya

3. The Land Plan of Notified area may be inspected in the office of the District Magistrate, Gaya

**By the order of the Governor,**  
**Sd/-Illegible,**  
**Joint Secretary to the government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 57-571+25 डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>